

11 भारतीय जीवन बीमा निगम की योजनाएँ एक दृष्टि में

Scheme of LIC : At a glance

योजना का नाम टेबल क्र.	योजना अवधि	बीमाधन न्यूनतम / में अधिकतम	आयु वर्षों न्यूनतम / अधिकतम	अधिकतम मैच्यूरिटी उम्र	लाभ		टिप्पणी
					परिपक्वता पर	सामान्य मृत्यु पर	
नई जीवन आनंद 815	15 35	1 लाख सीमा रहित	18 50	75	बीमाधन + बोनस	बीमाधन + बोनस	मृत्यु पर बीमाधन त्रमूल बीमाधन का 125 प्र.श. अधिक या वार्षिक प्रीमियम का 10 गुणा मृत्यु दिनांक तक जमा किया गया प्रीमियम के 125 प्र.श. से मृत्यु लाभ कम नहीं होगा
नई बंदोबस्ती प्लान 814	12 35	1 लाख	8 55	75	बीमाधन + बोनस	बीमाधन + बोनस	मृत्यु पर बीमाधन त्रमूल बीमाधन का 125 प्र.श. अधिक या वार्षिक प्रीमियम का 10 गुणा मृत्यु दिनांक तक जमा किया गया प्रीमियम के 125 प्र.श. से मृत्यु लाभ कम नहीं होगा
नई मनी बैक 20 वर्ष	20	1 लाख	13 50	70	बीमाधन का 40 प्रतिशत + बोनस	बीमाधन + बोनस	जीवित रहने पर लाभ – 5वें, 10वें, 15वें वर्ष में बीमाधन का 20 प्र.श. प्रीमियम भुगतान अवधि 15 वर्ष मृत्यु पर बीमाधन मूल बीमाधन का 125 प्र.श. या वार्षिक प्रीमियम का 10 गुणा, जो अधिक हो। मृत्यु दिनांक तक जमा किया गया प्रीमियम के 125 प्र.श. से मृत्यु लाभ कम नहीं होगा
नई बीमा बचत 816	9 / 12 / 15	9 / 12 / 15 वर्षों के लिए कमश' 35000 / 50000 / 70000	9 / 12 / 15 वर्षों के लिए कमश' 66 / 63 / 60	75	प्रीमियम + लायल्टी बोनस	बीमाधन + बीमा पालिसी 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद लायल्टी बोनस	जीवित रहने पर लाभ – 9 वर्ष वाली पालिसी के लिए—बीमाधन का 15% – 3 व 6 वर्ष के अंत में जीवित रहने पर लाभ – 12 वर्ष वाली पालिसी के लिए—बीमाधन का 15% – 3, 6 व 9 वर्ष के अंत में जीवित रहने पर लाभ – 15 वर्ष वाली पालिसी के लिए—बीमाधन का 15% - 3, 6, 9 व 12 वर्ष के अंत में
जीवन अनमोल II	5 25	6 लाख 24 लाख	18 55	65	निरंक	बीमाधन	बीमा अवधि 24 लाख तक के लिए टर्म इश्योरेंस पालिसी
जीवन अमूल्य II	5 35	25 लाख	18 60	70	निरंक	बीमाधन	बीमा अवधि 25 लाख से उपर के लिए टर्म इश्योरेंस पालिसी

टीप – पालिसी लेते समय आपको हमेशा दुर्घटना बीमा हेतु आवश्यक साईडर का विकल्प भी चुनना चाहिए।